

No.



नगर विकास न्यास, कोटा



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज. सरकार

आवेदन पुरस्तिका

देवनारायण नगर आवासीय योजना



श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

कुल भूखण्ड 1800

दर 600/- प्रति वर्ग फुट



आवेदन पत्र विक्रय
आरम्भ करने की तिथि

01 फरवरी
2023

आवेदन पत्र जमा
करने की अन्तिम तिथि

28 फरवरी
2023

200/-



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से रू. 200/- देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि तथा रू. 2000/- प्रशासनिक शुल्क सहित जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।
2. फार्म के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज
(अ) आधार कार्ड की प्रति
(ब) पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति (आयकर दाता होने पर)
(स) निवास के प्रमाण पत्र की स्व अनुप्रमाणित प्रति
(द) शपथ पत्र
(य) Cancelled चैक
(र) बैंक ड्राफ्ट/चैक

ध्यान देने योग्य बातें :-

- 1 अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदें।
- 2 नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
- 3 नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
- 4 नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तान्तरण करें।
- 5 अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
- 6 कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
- 7 भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
- 8 अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें।



नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

✉ kotauit@yahoo.com www.uitkota.org

नगर विकास न्यास कोटा

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में आवास की आवश्यकता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक मनुष्य का स्वयं का घर होने का सपना होता है। भारत की लगभग एक चौथाई शहरी आबादी अभी भी ऐसी आमदनी पर जीवन यापन कर रहे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, उनमें ज्यादातर लोग गंदी बस्ती और छोटे घनत्व (बसावट) में अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं। ये लोग सम्मानित जीवन, आश्रय, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं के अधिकारों से वंचित हैं। इनकी आमदनी का 80% हिस्सा खान-पान में खर्च हो जाता है और जीवन निर्वाह हेतु अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास आदि के लिए बहुत कम हिस्सा बचता है। भूमि की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये लोग मूलभूत सुविधाओं से युक्त योजना में भूखण्ड क्रय करके आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते और मलिन बस्तियों के अस्वच्छ वातावरण में रहने की मजबूर हो जाते हैं। देश की करीब एक तिहाई शहरी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है।

नगर विकास न्यास, कोटा इसी सपने को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। शहरी निर्धन वर्ग हेतु मूल सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त कम कीमत पर 1800 भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित किये गये हैं।

न्यास ने इस योजना में कुल 1800 भूखण्डों के निश्चित एवं उचित दर पर एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया है ताकि उनको एक निश्चित एवं उचित दर पर भूखण्ड लेने का अवसर मिल सके।

इस योजना के लिए कई प्रकार की छूटे दी जा रही हैं, जिनका विवरण आवेदन पुस्तिका में अंकित है।

आम जनता से अनुरोध है कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करें व योजना लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित ।

राजेश जोशी

आर.ए.एस.

सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

ओम प्रकाश बुनकर

आई.ए.एस.

अध्यक्ष नगर विकास न्यास, एवं
जिला कलक्टर, कोटा

योजना में उपलब्ध भूखण्ड एवं दर

क्र०सं०	योजना का नाम	उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्र.व.मी.)	निश्चित विक्रय दर आवंटन हेतु प्रस्तावित दर रू. (प्र.व.फी.)	विशेष विवरण
1.	देवनारायण नगर आवासीय योजना	1800	2600/-	600/-	कॉर्नर भूखण्ड के लिए 10% अतिरिक्त राशि देय होगी।

★ देवनारायण नगर आवासीय योजना

विशेष छूटे :-

1. आय वर्ग (इनकम ग्रुप) की बाध्यता नहीं :-

आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह दी गई किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

2. पूर्व में भूखण्ड/आवास होने पर भी पात्र :-

आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

3. भूखण्ड की कीमत में 4% की छूट का विकल्प :-

देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करने पर भूखण्ड की कीमत में 4% की छूट दी जायेगी।

4. हस्तान्तरण हेतु विक्रय अनुमति के लिए देय राशि में छूट :-

भूखण्ड के हस्तान्तरण हेतु विक्रय अनुमति प्राप्त करने के लिए देय 10% कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी) देय नहीं है।

5. एक व्यक्ति /परिवार के द्वारा एक से अधिक आवेदन की छूट :-

एक व्यक्ति के द्वारा अथवा एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी एक से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नगर विकास न्यास, कोटा

विशेष आकर्षण :-

1. पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क के बैंक/RTGS से भी भुगतान की सुविधा।
2. भूखण्डों का सस्ती दरों पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन।
3. लॉटरी, आवेदन की अन्तिम तिथि से एक माह में निकाली जायेगी।
4. भुगतान 15%, 35% एवं 50% क्रमशः 30 दिवस, 120 दिवस एवं 240 दिवस में किये जाने की सुविधा।
5. असफल आवेदको को पंजीयन राशि का रिफण्ड, लॉटरी की तिथि से एक माह में।
6. चौड़ी सड़कें
7. विभिन्न वर्गों को आरक्षण की सुविधा।

न्यास द्वारा इस योजना में भूखण्डों की दरों में कमी, आवेदन करने हेतु पात्रता में विशेष छूटें एवं विशेष आकर्षण हेतु कई प्रकार की शिथिलतायें दी गई हैं। इन्हें अन्य योजनाओं अथवा नीलामी के भूखण्डों के लिए आधार या उदाहरण नहीं बनाया जा सकेगा।

योजना स्थल एवं विशेषताएं :-

★ देवनारायण नगर आवासीय योजना :-

नगर विकास न्यास की देव नारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना राजस्व ग्राम धर्मपुरा में न्यास भूमि पर विकसित की जा रही है, जो देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना के समीप ही है। इस योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्नानुसार है :

1. न्यास की रानपुर योजना से - 1.50 कि.मी.
2. फोरलेन बाइपास से - 6.50 कि.मी.
3. बंधा धरमपुरा रोड़ पर पूनिया देवरी के पास स्थित है।

आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है :-

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप :-

1. राजस्थान के मूल निवासी है।
2. आप की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष की हो चुकी हो।
3. आवेदन सम्बन्धी निर्धारित अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं।
4. आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह किसी भी साईज के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

योजना का नाम : उम्मेदगंज

दर 600/- प्रति वर्ग फीट

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	12 X 21	252	2711.52	100	16,26,912/-	1,70,000/-
2	9 X 19.5	175.5	1888.38	100	11,33,028/-	1,20,000/-
3	9 X 18	162	1743.12	400	10,45,875/-	1,10,000/-
4	7.5 X 15	112.5	1210.5	700	7,26,300	80,000/-
5	6 X 12	72	774.72	200	4,64,832/-	50,000/-
6	4.5 X 9	40.5	435.78	300	2,61,468/-	30,000/-
			योग	1800		

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/-रु. प्रशासनिक शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय (Non Refundable) है।

योजना का विवरण :-

देवनारायण नगर आवासीय योजना में भूखण्डों की संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य आय(Taxable Income) होने पर आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र है।
6. आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने हेतु वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना होगा।
7. संयुक्त नाम से आवेदन करने की स्थिति में दोनो एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।
2. योजना के अर्न्तगत सभी साइजों के लिए आवेदन पत्र एक ही है। कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरो में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/जिले का नाम, आधार नं. पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखे।
4. आवेदन पत्र अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करवाना होगा।
5. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
6. आवेदन पत्र इस पुस्तिका में वर्णित शर्तों, विशेष अनुदेशों आदि का पूर्ण अध्ययन कर भरा जावे। आवेदन एकल नाम से या संयुक्त नाम से निश्चय करके ही भरा जावे। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
7. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे, जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
8. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित योजना के लिए निर्धारित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
9. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें।

10. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनो के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में दें।

विशेष अनुदेश

1. आवेदक की आय कर योग्य (Taxable) होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही **PAN CARD** की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए ।
2. आवेदक अपने खाते का एक कैंसिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
3. कृपया मोबाईल नं0, एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं0, ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योंकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
4. दिव्यांग/शारीरिक निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
5. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
6. पत्राचार, मांग/आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
7. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रशासनिक) शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक **सचिव, नगर विकास न्यास कोटा** के पक्ष में देय होना चाहिए।

अथवा

पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क **RTGS** के माध्यम से भी (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) हस्तान्तरित करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (**UTR No.** का उल्लेख करते हुए) निर्धारित बैंक में जमा कराया जा सकेगा।

आरक्षण :-

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हें उसी वर्ग के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

(a)राज्य सरकार के विभागों एवं स्थानीय निकायों व वैधानिक निकायों के कर्मचारी	सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं, जिनके पति की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ट्रांसजेण्डर	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी के लिए
(b)राज्य कर्मचारी की विधवा (राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक) तथा पति की आय मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर						
(c)केन्द्र सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूल निवासी)						
10%	10%	9%	6%	2%	2%	61%

कुल (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के) भूखण्डों के 5 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांग के लिए तथा 10 प्रतिशत बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए होगा।

नोट :- कुल भूखण्डों के 5 प्रतिशत की सीमा तक दिव्यांगों के लिए तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए आरक्षित करते हुए अर्थात् अलग करते हुए उनकी श्रेणीवार संख्या निकाली जाएगी। तत्पश्चात् उक्त 5 प्रतिशत की सीमा तक तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक के आवेदनों को श्रेणीवार (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणीवार) उपलब्ध भूखण्डों में से कम किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को दिव्यांग/बेसहारा भूमिहीन एकल महिला के साथ श्रेणी अर्थात् राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेण्डर/अधिस्वीकृत पत्रकार/सामान्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के भूखण्डों में से उक्त निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक कम करते हुए प्राप्त संख्या के अनुसार आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के भूखण्डों के लिए लॉटरी निकाली जायेगी।

स्पष्टीकरण :

1. राज्य कर्मचारी :

(a) : जो व्यक्ति राजस्थान सरकार, राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य/केन्द्र कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर को इस वर्ग में नहीं माना जावेगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

(b) राज्य कर्मचारी की विधवा भी राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र होगी, किन्तु उसके पति की वार्षिक आय, मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर ही पात्र होगी।

(c) केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं होने पर पात्र होंगे।

2. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ., कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी से है। सैनिकों की विधवाये वे हैं जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रुपयों से अधिक नहीं हो।

4. ट्रांसजेण्डर पर्सन जिनकी वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो, पात्र होंगे।
5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो। इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।
6. शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण दिव्यांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है। इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो। दिव्यांग आवेदक को आवेदन में दिव्यांग के साथ आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी अर्थात् राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेण्डर/अधिस्वीकृत पत्रकार/सामान्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पुनर्विवाह नहीं करने तथा विवाह विच्छेद होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की प्रति तथा पुनर्विवाह नहीं करने, आवेदक के पास आवास/भूखण्ड/भूमि नहीं होने, वयस्क सन्तान नहीं होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (जो तहसीलदार के स्तर से कम नहीं हो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज संलग्न करना होगा। इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो। बेसहारा भूमिहीन एकल महिला आवेदक को आवेदन में बेसहारा के साथ आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी अर्थात् राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेण्डर/अधिस्वीकृत पत्रकार/सामान्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस ग्रुप के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी ग्रुप के आवेदकों को किया जायेगा।
- यदि किसी साईज/क्षेत्रफल के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदन पत्र उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में कम हो तो श्रेणीवार लॉटरी नहीं निकाली जाकर उस साईज/क्षेत्रफल के उपलब्ध भूखण्ड एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर सकलित लॉटरी निकाली जायेगी।
- आरक्षित वर्ग के संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।
- किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करले कि उस श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधार पर भूखण्ड उपलब्ध है।
- क्षेतिज आरक्षण (दिव्यांग/बेसहारा भूमिहीन एकल महिला) के अंतर्गत आवेदन करने पर आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध भूखण्डों में से पहली प्राथमिकता ऐसे पात्र व्यक्तियों को रहेगी।

एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक (क्षेतिज आरक्षण के अंतर्गत अर्थात् दिव्यांग/बेसहारा भूमिहीन एकल महिला को छोड़कर) आवेदन किये जा सकते हैं। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें एक से अधिक भूखण्ड आवंटन किये जा सकते हैं, किन्तु लॉटरी निकलने के पश्चात् भूखण्ड निरस्त करने/पंजीयन राशि वापसी की मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी। दिव्यांग/बेसहारा भूमिहीन एकल महिला के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा एक ही आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक संलग्न करते हुए आवेदन फार्म योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण मय प्रशासनिक शुल्क राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/चैक द्वारा आवेदन पुस्तिका में निर्धारित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका में योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व जमा किये जा सकेंगे। यूआईटी समापन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. किसी भी योजना में आवेदन के पूर्व भली-भांति विचार कर लेवे। आवेदन फार्म जमा करने के उपरान्त आवेदन विद्वा करते हुये जमा राशि वापस करने अथवा योजना/साईज में परिवर्तन करने के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करले कि निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उस श्रेणी में भूखण्ड उपलब्ध है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 28-02-2023 है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) समस्त वर्गों के लिए

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक
2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
3. कर योग्य आय (Taxable Income) होने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
4. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्वप्रमाणित प्रति।
5. आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चैक अथवा नवीनतम पास बुक की प्रति जिसमें खाता संख्या एवं बैंक के IFSC कोड नं. हो।

(ख) आरक्षित वर्ग के लिए:-

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों से संबंध रखता है, तो उसे निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी/सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल हैं, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए "अपेक्षित प्रमाण-पत्र" की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. राज्य सरकार के विभागों स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के कर्मचारियों/ केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, को सक्षम अधिकारी/अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. राज्य कर्मचारी की विधवा के द्वारा राज्य कर्मचारी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु के समय राज्य कर्मचारी होने के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु के समय पति की वार्षिक आय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने के सम्बन्ध में ITR की प्रति या अन्य कोई साक्ष्य, पीपीओ की प्रति, उसकी पत्नि होने एवं पुनर्विवाह नहीं करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पुनर्विवाह नहीं करने तथा विवाह विच्छेद होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की प्रति तथा पुनर्विवाह नहीं करने, आवेदक के पास आवास/भूखण्ड/ भूमि नहीं होने, वयस्क सन्तान नहीं होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (जो तहसीलदार स्तर से कम नहीं हो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज संलग्न करना होगा। इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो।

आवंटन की प्रक्रिया

- (1) लाटरी योग्य भूखण्डों की कुल संख्या 1800 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लाटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लाटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में दी जावेगी।

- (2) किसी साईज/क्षेत्रफल के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने की स्थिति में उस साईज/क्षेत्रफल के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को किया जायेगा तथा किसी साईज/क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुल उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में सभी श्रेणियों के प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या कम होने की स्थिति में सभी श्रेणियों के आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।
- (3) आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।
- (4) पात्र आवेदन पत्रों के आधार पर उपलब्ध भूखण्डों की लॉटरी आमजन के समक्ष निकाली जायेगी। लॉटरी का लाईव प्रसारण यूआईटी के फेसबुक पेज पर <https://www.facebook.com/100963708833473/live/> प्रदर्शित करवाया जा सकता है। सफल आवेदकों की सूची भी न्यास की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota> पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
- (5) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र शिविर आयोजित करके उसमें वितरित किये जायेंगे अथवा पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे। सफल आवंटियों की सूची न्यास की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota> पर अपलोड करवाई जायेगी तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। ऐसी स्थिति में आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

मांगी गई राशि के भुगतान की अवधि पद्धति:-

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जमा करवाना होगा :-

आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में	15 प्रतिशत
आवंटन पत्र जारी होने के 120 दिवस में	35 प्रतिशत
आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस में	50 प्रतिशत

(जमा पंजीयन राशि कम करते हुए)

नोट:-

1. देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा तथा $240 + 90 = 330$ दिवस तक 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है। इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिवस में सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड की कुल कीमत की 4 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
3. साईट प्लान के रू. 200/- देय अन्तिम किश्त अर्थात् देय 50 प्रतिशत राशि के साथ तथा यदि सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो उसके साथ जमा करवाने होंगे।

आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय चैक / डी.डी. / पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जमा करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जमा करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसी:-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी/धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिह्नित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पत्र दिया है, जहां डाक/कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां माल पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार डाक/कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक/आवंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी- यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योंकि इन ब्यौरों को धन वापसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) :-

सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकेगा। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्डों की रजिस्ट्री:-

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर न्यास में पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। 12 माह के अन्दर पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/- प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। तदपरान्त नगरीय कर (लीज) जमा करने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। आवंटी द्वारा इस पट्टा विलेख का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. भूखण्ड पर नगरीय कर योजना की आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार जमा करवाना होगा। आवंटी को भूखण्ड की लीज डीड जारी करते समय नियमानुसार देय नगरीय कर (लीज मनी) की राशि आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। प्रथम 5 वर्ष में नगरीय कर आधी दर अर्थात् 1.25% प्रतिवर्ष देय है। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात्/प्रत्येक हस्तानान्तरण पर नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।
2. आठ (8) वर्ष नगरीय कर पूर्ण दर से एकमुश्त जमा करवाने पर 99 वर्ष तक नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

भूखण्ड का कब्जा:-

लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए कब्जा पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतिरिक्त भूमि होने पर नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

आवंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाने के पश्चात पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने, नगरीय कर जमा करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने पर न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का हस्तान्तरण अर्थात् विक्रय किया जा सकता है। भूखण्ड के विक्रय हेतु स्वीकृति/अनुमति हेतु देय 10 प्रतिशत कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी) देय नहीं है।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य:-

भूखण्ड पर 7 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य करना होगा। 7 वर्ष के अन्दर एक आवासीय इकाई का निर्माण नहीं करवाया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढ़ा सकते हैं। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

अन्य:-

1. भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डों की एक इकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट/चैक सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।
6. भूखण्डों की माप, संख्या कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आवंटित भूखण्ड का कब्जा नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदकों की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आवंटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक योजना को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेवे तथा संतुष्टी के पश्चात ही आवेदन करें।
13. आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा निर्धारित साईज/क्षेत्रफल के लिए आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित अनुमानित कीमत के अलावा (a) कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10% अतिरिक्त चार्ज (b) क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि (c) नगरीय कर की राशि (d) रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में देय स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि चार्जेज देय होंगे। यदि आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की जाती है जैसे - (i) समय पर राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ब्याज/शास्ति (ii) समय पर रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख न्यास में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति (iii) निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करवाया जाता है तो लेवी/शास्ति (iv) निर्धारित अवधि में पंजीयन कार्यालय से पंजीयन कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति की राशि इत्यादि चार्जेज भी देय होंगे।
14. आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लाटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लाटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री
..... आयु..... निवासी

..... घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने/शर्तों की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक :

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री
..... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

राज्य सरकार के विभाग/स्थानीय निकाय/वैधानिक निकाय अथवा
केन्द्र सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूल निवासी) के लिए

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
.....इस कार्यालय/विभाग में दिनांक
..... से पद..... पर कार्यरत है तथा पे
बेण्ड में रनिंग पे बेण्ड..... है तथा इनकी ग्रेड पे है

इनका माह.....का वेतन निम्न प्रकार है :-

1. वेतन + ग्रेड पे	रूपये.....
2. विशेष वेतन	रूपये.....
3. डी.ए.	रूपये.....
4. मकान किराया भत्ता	रूपये.....
5. डेपूटेशन/शहरीय भत्ता	रूपये.....
6. अन्य	रूपये.....
योग	रूपये.....

कुल मासिक वेतन (समस्त भत्तों सहित)

रूपये प्रति माह अक्षरे रूपये.....

मात्र प्रतिमाह है। श्री.....इस विभाग की राजकीय
सेवा में अर्द्ध राजकीय सेवा में नियमित वेतन श्रृंखला में कार्यरत है।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी मय नाम पद एवं
मोहर

**नोट :- यह प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जो जिला स्तर के अधिकारी या उससे
उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।**

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री.....
...../पुत्री /पत्नि श्री.....

निवासी.....

जिला.....(राज.) जाति..... के सदस्य है

जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत
राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायब
तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा
सकती है।)

बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती

आधार कार्ड नं.

पत्नि स्व. श्री / तलाकशुदा श्री निवासी.....

जिला.....

- (1) श्रीमती के पति श्री.....
की मृत्यु दिनांक..... को हुई थी।

अथवा

श्रीमती के पति श्री.....
से विवाह विच्छेद हो गया है। विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में माननीय
न्यायालय द्वारा पारित आदेश / डिक्री
दिनांक..... को जारी किया गया है।

- (2) इनके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया है।
(3) इनके पास आवास / भूखण्ड / भूमि नहीं है।
(4) इनकी कोई वयस्क सन्तान नहीं है।
(5) इनकी वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।)

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु स्व घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु.....निवासी.....

.....घोषणा करता/करती हूँ, कि:-

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदन कर रहा हूँ।
- (2) मैं थल/जल/वायुसेना/बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ./सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हूँ।
- (3) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। मैं उनके ऊपर आश्रित होने के आधार पर आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर रहा हूँ।
- (4) मेरी वार्षिक आय 20.00 लाख रूपए से अधिक नहीं है।
- (4) उक्त सम्बन्ध में प्रमाण हेतु दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्न

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री

..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये भूखण्ड का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिव्यांग/निःशक्त / विकलांग (PwD) प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....

.....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये नियमानुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।

स्थान :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों (Accredited Journalist) के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....

.....तहसील

जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :

अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

बैंक A/C : SBI 41614836363
IFSC Code : SBIN0031252
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने कर्म के साथ संतान करने हेतु)
चालान नं. दिनांक

नाम
पिता/पति का नाम

पता

देवनासयण नगर आवासीय योजना

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि	रूपये
12 X 21 = 252 Sqm, Rs 1,70,000/-	
9 X 19.5 = 175.5 Sqm, Rs 1,20,000/-	
9 X 18 = 162 Sqm, Rs 1,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 Sqm, Rs 80,000/-	
6 X 12 = 72 Sqm, Rs 50,000/-	
4.5 X 9 = 40.5 Sqm, Rs 30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चैक / डी.डी. नं.	
दिनांक	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक A/C : SBI 41614836363
IFSC Code : SBIN0031252
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टैंडर्ड के साथ यूआरडी को प्रस्तुत करने हेतु)
चालान नं. दिनांक

नाम
पिता/पति का नाम

पता

देवनासयण नगर आवासीय योजना

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि	रूपये
12 X 21 = 252 Sqm, Rs 1,70,000/-	
9 X 19.5 = 175.5 Sqm, Rs 1,20,000/-	
9 X 18 = 162 Sqm, Rs 1,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 Sqm, Rs 80,000/-	
6 X 12 = 72 Sqm, Rs 50,000/-	
4.5 X 9 = 40.5 Sqm, Rs 30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चैक / डी.डी. नं.	
दिनांक	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक A/C : SBI 41614836363
IFSC Code : SBIN0031252
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक

नाम
पिता/पति का नाम

पता

देवनासयण नगर आवासीय योजना

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि	रूपये
12 X 21 = 252 Sqm, Rs 1,70,000/-	
9 X 19.5 = 175.5 Sqm, Rs 1,20,000/-	
9 X 18 = 162 Sqm, Rs 1,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 Sqm, Rs 80,000/-	
6 X 12 = 72 Sqm, Rs 50,000/-	
4.5 X 9 = 40.5 Sqm, Rs 30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चैक / डी.डी. नं.	
दिनांक	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक A/C : SBI 41614836363
IFSC Code : SBIN0031252
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
चालान नं. दिनांक

नाम
पिता/पति का नाम

पता

देवनासयण नगर आवासीय योजना

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि	रूपये
12 X 21 = 252 Sqm, Rs 1,70,000/-	
9 X 19.5 = 175.5 Sqm, Rs 1,20,000/-	
9 X 18 = 162 Sqm, Rs 1,10,000/-	
7.5 X 15 = 112.5 Sqm, Rs 80,000/-	
6 X 12 = 72 Sqm, Rs 50,000/-	
4.5 X 9 = 40.5 Sqm, Rs 30,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
चैक / डी.डी. नं.	
दिनांक	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र हेतु विशेष सूचना

1. इस पुस्तिका में वर्णित योजना में किसी भी साईज / क्षेत्रफल के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन फार्म तथा चालान में इच्छित साईज क्षेत्रफल के लिए चिह्नित किया जाना है
2. आवेदन फार्म स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की कोटा स्थित किसी भी शाखा से तथा बारां, झालावाड़ एवं बून्दी की प्रमुख शाखाओं से 200/- जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जा सकते हैं।



**स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की
कोटा में स्थित समस्त शाखाएं**

**स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की
बारां, झालावाड़ एवं
बून्दी की प्रमुख शाखाएं**